FINANCIAL EXPRESS



# **ASIA PACK LIMITED**

Registered Office: 3<sup>rd</sup>Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India, PIN-313301 CIN: L74950RJ1985PLC003275 Tel. No. 1800 120 3699, Email: lakshit.samar@mirajgroup.in, Website: www.asiapackltd.con

NOTICE OF 38"ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION Dear Member(s),

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("Meeting" or "AGM") of the Members of Asia Pack Limited ("Company" or "APL") will be held on Saturday 30 th day of September, 2023 at 11.00 A.M. at the registered office of the company at 3rd Floor, Miraj Campus, Uper Ki Oden, Nathdwara, Rajsamand, Rajasthan, India PIN-313301 to transact the business, as set out in notice of AGM dated 14th August, 2023; in compliance with the applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act") and rules framed thereunder; provision of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulation"). Notice of 38th AGM and Annual Reports have been sent to all members at their

registered addresses in the permitted mode. The dispatch of Notice of 38th AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 has been completed on 06th September, 2023. The Notice and Annual Report of the financial year 2022-23 are available on the website of company at www.asiapackltd.com and website of the BSE Limited at www.bseindia.com or website of NSDL at www.evoting.nsdl.com Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, 24th September 2023 to Saturday, 30th September, 2023, (both days inclusive) for the purpose of 38th AGM of the Company Pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and Rule 21 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, including any amendment(s), modification(s) or variation(s) thereof and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India the Company is pleased to provide its Members the facility to cast their votes on the resolutions set forth in the Notice using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such remote e-voting. Only persons holding shares either in physical or in dematerialized form as on Saturday, September 23, 2023 ("Cut-off Date"), are entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM on the resolution set forth in the Notice. All the members are informed that:

- The business as set out in the Notice of AGM may be transacted through remote
- The facility for voting through ballot paper / polling paper shall be made available at the AGM.
- The remote e-voting shall commence on Tuesday, 26<sup>th</sup> September, 2023 at 09:00 A.M. and end on Friday, 29th September, 2023 at 05:00 P.M.;
- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after 05.00 P.M. on Friday, September 29, 2023 and Members shall not be allowed to vote through remote e-voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change the vote subsequently.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rd September, 2023;
- Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut off date i.e. 23 rd September, 2023 may obtain the user ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote: The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM
- may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again.
- For electronic voting instruction members may go through the instructions sen alongwith the Notice of AGM, in case of any queries, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the 'download' section of NSDL's e-voting website http://www.evoting.nsdl.com or may call on Toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430 or send a request to Ms. Prajakta Pawle at prajaktap@nsdl.com. evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances regarding the facility of e-voting Members may contact: Ms. Prajakta Pawle, Designation: Assistant Manager Address: Trade World, A Wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound Lower Parel, Mumbai-400013; E-mail id: prajaktap@nsdl.com evoting@nsdl.co.in and Phone Number(s): 022-24994360; Toll free no: 1800 1020 990 and 1800 224 430.

By Order of the Board of Directors For Asia Pack Limited Lakshit Samar

Date: 6<sup>th</sup> September, 2023 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Nathdwara

CORRIGENDUM

**Aicici** Bank Regd. Office: ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara - 390 007 Corporate Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

This is with reference to the captioned E-Auction under the Sarfaesi act Notice published on September 02, 2023 towards your aforementioned the Borrower B. Soni Jewellers with ICICI Bank Ltd. We wish to mention that inadvertently and unintentionally the date of total outstanding dues mentioned as on July 31, 2023 instead of August 02, 2023. And the date of said dues are required to be paid mentioned as on or before October 24, 2023 instead of September 25, 2023. All other details mentioned in the above said notice will

We sincerely regret the inconvenience caused to you in this regard.

Date : September 07, 2023 **Authorized Officer** Place : Delhi ICICI Bank Limited

> **SBEC SUGAR LIMITED** CIN: L15421UP1991PLC019160

Regd Off: Vill: Loyan Malakpur, Teh: Baraut, Baghpat, Uttar Pradesh-250611 Ph.: 011-42504878,

Email id: investors@sbecsugar.com, website: www.sbecsugar.com NOTICE OF THE 29TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

SBEC Sugar Limited ('the Company') will be held on Friday, the 29th September, 2023 at 10:00 A.M (IST) through Video Conferencing ('VC') facility / other audio visual means ('OAVM') to transact the business as set out in the Notice of the AGM. In view of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 (MCA Circulars) and SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023, has permitted the holding of AGM through VC/OAVM, without requiring the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM). In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report

2022-23 are being sent only by electronic mode to those members, whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent/Depositories as on August 25, 2023. The Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for the FY 2022-23 is available on the website of the Company at www.sbecsugar.com, website of BSE at www.bseindia.com and on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) i.e. www.evotingindia.com. The company has already sent notice of AGM and Annual Report only through e-mail to the shareholders on 06th September, 2023.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorun as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting ") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

The remote e-voting shall commence from 26th September, 2023 at 9.00 A.M. and ends or 28th September, 2023 at 5.00 P.M. The remote e-Voting shall not be allowed beyond the said date and time and the remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting The cut-off date (record date) is 22nd September, 2023 for e-voting. A person whose name

is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by

the Depositories, as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting or e-Voting at the AGM. Any person, who acquire Shares and becomes Member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds Equity Shares as on the Cut-off date, may generate the Login ID and Password by following the procedure for e-Voting as mentioned in the Notice of AGM. However, if the Member is already registered with CDSL for e-Voting, such Member can use the existing Login details for casting the vote through e-Voting. The Members who have already cast their vote by remote e-Voting, prior to the date of AGM,

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2023 to 29th September, 2023 (both days inclusive).

may also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to vote again at the

In case you have any gueries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call at 1800 22 55 33

Place: New Delhi Date: 06.09.2023

0172-2721096,

Company Secretary & Compliance officer

**Stressed Asset Management Branch E-AUCTION** युनियन बेंक Union Bank Stressed Asset Management Branch SCO 137-138,Sector-8 C, Chandigarh-160009 SALE NOTICE Email:ubin057811@unionbankofindia.bank

For SBEC Sugar Limited

Ankit K. Srivastava

APPENDIX- IV-A [See proviso to rule 8 (6)] Sale notice for sale of immovable properties

Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular by the Authorized Officer, that the under mentioned property mortgaged to Union Bank of India, taken possession under the provision of Section 13(4) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, will be sold by E-Auction as mentioned below for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc. as detailed below The property is being sold on "AS IS WHERE IS WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of

warranties and indemnities The under mentioned property/ies will be sold by "Online E-Auction through website www.mstcecommerce.com,

on 26.09.2023 from 12.00 NOON to 05.00 PM. \*Minimum bid incremental value for each bid is Rs. 50,000/- or in multiple thereof.,

\*Any encumbrances over the property/ies is not known to the Bank/Secured Creditor. **Demand Notice** 

Name of the Name of the **Borrower/Mortgagor and** Date & No. Account Guarantor Amount Claimed 21.06.2021

Borrower: M/s Hillsfood Agro Beverages Pvt. Ltd. Plot No. 21-C, M/s Hillsfood Agro Industrial Area, Lodhi Majra, Tehsil- Baddi , Distt. -Solan, Himachal Beverages Pvt. Ltd. Pradesh -173205 (Through Directors Mr. Sudheer Kumar Gupta and Mr. Pradeep Kumar Gupta) Directors: - 1. Mr. Sudheer Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta, House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka Panchkula, Haryana-133302. 2. Mr. Pradeep

Paisa Eighty Eight Only) as on 21.06.2021. Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta House No-153/5, Prempuri, Muzaffarnagar, UP-251002. Guarantor/ Mortgagor 1. Mr. Sudheer Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula, Haryana-133302. 2. Mrs. Sangeeta Jindal W/o Anuj Jindal, H. No. 32-A-F4 Shakti Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201010. 3. Mr. Pradeep Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta, H. No.153/5, Prempuri, Muzaffarnagar, UP-251002. 4. Mr. Sanjay Mittal, H.No. 126/F, Type-5, Sector-3, Reliance Green, Moti Khavdi, Jamnagar, Gujrat-361140. 5. Mr. Anuj Kumar, H. No. 32-A-F4, Shakti Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201010. 6. Mr. Sunil Kumar S/o Rajesh Chand Jindal, Address 1- BLK-555, 06-33, Woodlands Drive-53, Singapore -730555. Address 2- C/O Rajesh Chand & Sons Bugrasi Chopla, Siyana, Distt. Buland Shahar, UP-245412.

Details of the Property/ies to be sold LOT: 1. : Against Mortgage of (CERSAI Registration Id: (Security Interest Id – 400005963753 & Asset Id – 200005955899) Residential Flat belonging to Mr. Sunil Kumar S/o Rajesh Chand Jindal situated at Flat No. F-4, First Floor, Plot No. 32-A, Shakti Khand-2, Indirapuram, District Ghaziabad, Uttar Pradesh admeasuring 77.20 Sq. meter as document No. 7919 dated 06.04.2005 and bounded by (As per Valuation Report) East:- Other Vacant Plot, West: Entrance, Stair thereafter Flat No. F-1 in, the same building, North:- Flat No. F-3 in the same building, South – Other Vacant Plot. (Type of Possession: Symbolic Possession).

Rs. 41,00,000/-Rs. 4,10,000/-

**LOT** : 1

**Reserve Price** 

**EMD** 

LOT: 2. Against Mortgage of (CERSAI Registration Id: (Security Interest Id - 400009616061 & Asset Id -200009598776) Residential Open Plot belonging to Mrs. Sangeeta Jindal W/o Anuj Jindal at Plot No. D-227, area measuring 200 Sq.Mt situated at Village Achheja, Preet Vihar, Phase-1, Hapur, Uttar Pradesh – 245101 as per Sale Deed No. 5844/1 dated 29.04.2008 and bounded by (As per Sale Deed) East:- Plot No. D-226, West: Plot No. D-228,

**LOT : 2** Rs. 45,00,000/-

Rs. 4,50,000/-

North:- Road, South – Other Property. (Type of Possession: Symbolic Possession). M/s SMS International Borrower: M/s SMS International Beverages Pvt. Ltd. Plot No. 49, Industrial Area, Lodhi Majra, Tehsil- Baddi, Distt. -Solan, Beverages Pvt. Ltd. Himachal Pradesh -173205. (Through Directors Mr. Sudheer Thirty Eight Thousands Four Hundred Sixty Nine and Kumar Gupta and Mrs. Babita Gupta) Directors: - 1. Mr. Sudheer Kumar Gupta S/o Padam

28.06.2021 Rs. 5,20,38,469.82 (Rupees Five Crores Twenty lakhs Paisa Eighty Two Only) as on 28.06.2021 together with

Rs. 5,62,50,660.88 (Rupees Five Crores Sixty

Two Lakhs Fifty Thousand Six Hundred Sixty and

Sain Gupta, House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka Panchkula, Haryana-133302. 2. Mrs. Babita further interest, cost and expenses w.e.f. 29.06.2021. Gupta W/o Mr. Sudheer Kumar Gupta House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula, Haryana-133302. Guarantor/ Mortgagor 1.Mr. Sudheer Kumar Gupta S/o Padam Sain Gupta House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula Haryana-133302. 2. Mrs. Sangeeta Jindal W/o Anuj Jindal, H.No. 32-A-F4, Shakti Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad, UP-201010. 3. Mrs. Babita Gupta W/o Mr. Pradeep Kumar Gupta, House No. 153/5, Prempuri, Muzaffarnagar, UP-251002. 4.Mrs. Babita Gupta W/o Mr. Sudheer Kumar Gupta, House No. 1383/1, Ramnagar, Kalka, Panchkula, Haryana-133302. 5.Mr. Sanjay Mittal, H. No.126/F, Type-5, Sector-3, Reliance Greens, Moti Khavdi, Jamnagar, Gujrat-361140. 6.Mrs. Kanchan Mittal W/o. Sanjay Mittal, H.No. 126/F, Type-5, Sector-3, Reliance Greens/Reliance Township, Moti Khavdi, Jamnagar, Gujrat-361140. 7.Mrs. Rachna Agarwal W/o Sanjeev Jindal, Address 1- C/O Rajesh Chand & Sons, Bugrasi Chopal, Siyana Distt. Buland Shahar, UP-203001. Address 2- H. No.03-33, Block-742, Pasir Ris St-71, Singapore Pin Code-730633. 8.Mr. Mool Chand Garg, H. No-233/19, Barampuri, Muzaffarnagar, U.P. 9.Mr. Rajdeev Garg S/o Mool Chand Garg, Address 1- Block-633, 03-155, Woodlands Ring Road, Singapore, Pin Code-730633. Address 2- House No.233/19, Brahmpuri, Muzaffarnagar, U.P. 251001. 10. Mr. Sanjeev Jindal S/o Rajesh Chand Jindal. Address: 1. Block 742, Pasir RIS, Street 71, Unit -03-33, Singapore-510742. Address: 2. C/o Rajesh Chand & Sons, Bugrasi Chopla, Siyana, District Buland Shahar, UP.

Details of the Property/ies to be sold LOT: 1. : Against Mortgage of (CERSAI Registration Id No: (Security Interest Id – 400005963902 & Asset Id – 200005956046) Residential Flat Jointly belonging to Mr. Sanjeev Jindal and Mr. Rajeev Garg situated at Flat No. F2, 1st Floor (Back Side) at Plot No. 639, Shakti Khand-3, Indirapuram, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201014 measuring appx 65.00 Sq. Mt and bounded by (As Per latest valuation) East – Plot No. 638, West – Plot No. 640, North – Plot No. 666, South – Front side flat in the same building. (Type of Possession: Symbolic Possession).

Rs. 3,90,000/-**LOT: 2** 

**LOT** : 1

Rs. 39.00.000/-

LOT: 2. Against Mortgage of (CERSAI Registration Id No: (Security Interest Id - 400005963812 & Asset Id -200005955957) Residential Flat Jointly belonging to Mr. Sanjeev Jindal and Mr. Rajeev Garg situated at Flat No. G2, Ground Floor (Back Side) at Plot No. 639, Shakti Khand-3, Indirapuram, Tehsil & District Ghaziabad, Uttar Pradesh -201014 measuring appx 65.00 Sq. Mt and bounded by (As Per latest valuation) East – Plot No. 638, West – Plot No. 640. North – Plot No. 666, South – Front side flat in the same building. (Type of Possession: Symbolic Possession).

Rs. 40,00,000/-Rs. 4,00,000/-

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided on Secured Creditor's website i.e. www.unionbankofindia.co.in and website: www.mstcecommerce.com. In case of problem related to EMD transfer/EMD refund or any issue related to Finance & account, bidders can directly contact the help desk nos. 033-22901004/ 033-22895064 or write email to bbarik@mstcindia.co.in, shembram@mstcindia.co.in. The contact details are also provided in the help desk menu of the login page of the link: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi. For Registration and Login and Bidding Rules visit https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6)/Rule 9(1) OF STATUTORY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002 This may also be treated as notice u/r 8(6)/Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the borrower/s and guarantor/s of the said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

DATE: 06.09.2023 **PLACE**: Chandigarh **AUTHORISED OFFICER, UNION BANK OF INDIA**  UO /// UNIQUE ORGANICS LIMITED

CIN: L24119RJ1993PLC007148

Reg. Office: E-521, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (Raj.) Phone: +91-141-2770315/2770509 -mail: compliance@uniqueorganics.com, Website: www.uniqueorganics.com

NOTICE OF THE 31ST ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

ANNUAL GENERAL MEETING: NOTICE is hereby given that Thirty First (31st)

Annual General Meeting of the Members of Unique Organics Limited [CIN: L24119RJ1993PLC007148] will be held on Friday 29th September, 2023 at 12:30 p.m. through video conferencing/other audio visual means (VC/OAVM) only, to transact the business as set out in the Notice of the AGM. Pursuant to the General Circulars 10/2022 dated 28.12.2022, 2/2022 dated 05.05.2022, 20/2020 dated 05.05.2020 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). Notice of the 31st AGM along with the Integrated Annual Report 2022-23 have been sent through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular. The Integrated Annual Report 2022-23 of the Company, inter alia containing the Notice and the Explanatory Statement of the 31st AGM is available or the website of the Company at http://uniqueorganics.com/investor/annual report/ and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. REMOTE E-VOTING AND JOINING AGM THROUH VC/OAVM: In compliance with

Section 108 of the Companies Act. 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-Voting and joining AGM are given in the Notice

of the AGM. Members are requested to note the following:

- The remote e-Voting will commence from 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, 26th September, 2023 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 28th September 2023. The remote e-Voting module shall be disabled thereafter by NSDL for
- The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid up equity share capital of the Company as on Friday, 22nd September, 2023 ('Cut-Off Date'): The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the
- AGM and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during the AGM; Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the
- Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800-222-990 as provided by NSDL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only; Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the meeting may
- also attend the meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. The same login credentials for e-voting, may also be used for attending the AGM through VC/OAVM.
- In case of any queries / grievances connected with remote e-Voting, you may refer to the Frequently Asked Questions and e-Voting user manual for Members available at the 'Downloads' Section of www.evoting.nsdl. com or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager from NSDL, Trade World, 'A' Wing, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at evoting@nsdl.co.in or amitv@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or at Tel. No.:

The Members who require technical assistance regarding logging-in to e-voting portal, assistance before / during the Meeting to access and participate in the AGM through VC/OAVM, may contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager, NSDL at amitv@nsdl.co.in, at Tel. / Mobile no.: +91 22 2499 4360 / +91 9920264780. evoting@nsdl.co.in or call at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or RTA ABS Consultants, Mr. Uttam Sharma at Tel. 033-22301043, Mobile no.: +91 9830674555. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 31st AGM and in particular, instructions for joining the AGM through VC/OAVM, manner of casting vote through remote e-voting. BOOK CLOSURE: Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Act and

the Rules framed thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23.09.2023 to 29.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of holding 31st AGM. For Unique Organics Limited

Ramavtar Jangid

Place: Jaipur Company Secretary Date: 06.09.2023 M. No. A38688

**OM INFRA LIMITED** CIN: L27203RJ1971PLC003414

Regd. Office: 2nd Floor, A-Block, Om Tower, Church Road, M.I. Road Jaipur-302001 Tel: +91-141-4046666

Website: www.ommetals.com | E-Mail Id: info@ommetals.com Notice of the 51st Annual General Meeting (AGM),

Remote e-Voting Information & Dividend

- 51st Annual General Meeting (AGM) of Members of Om Infra Limited will be held or Friday, 29 September 2023 at 12:30 p.m. IST through 'Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, read with MCA Circular Nos. 20/2020 dated 5th May, 2020 and 02/2022 dated 5th May, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) read with SEBI Circular dated 13th May, 2022 to transact the businesses set out in the notice calling the AGM through voting by electronic means.
- The Notice and Annual Report of the Company for the financial year ended 31st March, 2023 and other documents required to be attached thereto have been sen on 6th September, 2023 only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depositary in accordance with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) circulars and SEBI circulars.

Members who have not registered their E-Mail address are requested to registe the same in respect of the shares held in electronic form with the depository through their Depository Participant and in respect of shares held in physical form by writing

to M/s Skyline Financial Services Private Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company at admin@skylinerta.com along with a copy to the Company a The Annual Report along with Notice of AGM is also available on the Company's website www.ommetals.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited

The shareholders who wish to attend the AGM through Video Conferencing ("VC" Other Audio Visual Means ("OAVM"") are requested to go through the procedure laid down in the Notice of 51st AGM. Transaction of all business of the AGM through remote e- Voting is arranged to the Members through National Securities Depository Limited (NSDL). The remote e-Voting will be available from Monday 25. 2023 at 9.00 AM and ends on Thursday, September 28, 2023 at 5.00 PM. This facility will not be available thereafter. The procedure for remote e-voting along with the manner in which the members holding shares in physical form or who have not

notice of 51st AGM.

Date: 06.09.2023

Place: New Delhi

The members who have not cast their votes by remote e-Voting can exercise evoting during the AGM. The procedure for e-voting during the AGM is the same as that of the instructions mentioned for remote e-voting. The cut-off date for reckoning the eligibility of members for voting is Friday, 22

registered their E-Mail ID can cast their vote through E-Voting is provided in the

September, 2023. Any person holding shares in the Company at the close of business hours on the cut -off date alone is eligible for voting through remote evoting or e-voting on the day of the AGM. Any person who has acquired shares after the dispatch of the notice may obtain the User ID and password by sending an email request to https:/

www.evoting.nsdl.com or info@skylinerta.com. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies 'Act, 201: read with Rule 10 of The Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, that Register of

Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd September 2023 to Friday, 29th September 2023 (both days The Final Dividend if approved will be paid to such of the members, whose names appear in the Register of the Members of the Company as on Friday, 22 September 2023. In respect of shares held in dematerialized form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per the details furnished by the Depositories for

Pursuant to Income Tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020,

dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and

the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. The TDS rates may vary depending upon the residential status of the Shareholder and the documents submitted by them. Accordingly Final Dividend if approved by the members will be paid after deducting TDS. (0) Members who holds shares in dematerialized form and want to immediately to the concerned Depository Participant and not to the Company Members are also requested to give the MICR Code of their Bank to the Depository

this purpose at the end of business hours on Friday, 22 September, 2023.

data provided by the depositories, in case of such dematerialized shares. of their Bank Account viz. name and address of the branch of the Bank, MICR Code of the branch, type of Account and Account Number to RTA a admin@skylinerta.com along with a copy to the Company a

Participant. While making payment of Dividend, the RTA is obliged to use only the

For any queries/ clarifications please contact : NSDL on evoting@nsdl.co.in/

1800-222-990 or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager - NSDL at amitv@nsdl.co.in/ 022-24994360/ +91 9920264780 or Mr. Sagar Ghosalkar Assistant Manager- NSDL at sagar.ghosalkar@nsdl.co.in/ 022-24994553/+91 For Om Infra Limited

Dharam Prakash Kothari Chairman DIN: 00035298



Tel.No: +91-11-47385300, Fax: +91-11-47480746, Email: pearl@pearlpet.net, Website: www.pearlpet.net

CIN No. L25209DL1971PLC005535

Regd. Office: A-97/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi - 110020, INDIA

NOTICE OF 52nd ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM).

E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT

The 52<sup>nd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Thursday, September 28, 2023 at 05:00 PM through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in terms of "MCA Circulars" to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with MCA Circulars and SEBI Circulars, Notice of AGM alongwith the Annual

Report for the financial year 2022-23, inter-alia including the e-voting instructions and credentials has been sent only through e-mail on September 06, 2023 to the Members whose e-mail address are registered with the RTA/Company or with the Depository Participants. These documents can be downloaded from the website of the Company at www.pearlpet.net and also from the website of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively where the Equity Shares of the Company are listed. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, and MCA Circulars, the company is providing remote e-voting facility and e-voting at AGM through National Securities Depository Limited (NSDL) The e-voting facility is being provided to the Members whose names appear in the register o

members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2023 to exercise their right to vote by using remote e-voting and e-voting at the AGM on any or all of the businesses specified in the Notice of AGM. Detailed procedure and instructions for joining the meeting through VC/OAVM and remote e-voting facility and e-voting at AGM are mentioned in the Notice of AGM. Date and time of commencement and ending of remote E-voting:

Commencement: Monday, September 25, 2023 (09.00 AM) Ending: Wednesday, September 27, 2023 (05.00 PM)

During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in

their existing user ID and password for casting their vote.

dematerialized form, as on the cut-off date September 21, 2023, may cast their vote by The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 PM on Wednesday September 27, 2023 and the members will not be allowed to vote by way of remote e-voting

beyond said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the member, he/she/it shall not be allowed to change it subsequently. Members who have casted their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC/OAVM, but are not entitled to cast their vote again. Members who have not casted their vote through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM

shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Any person who have acquired shares and become members of the Company after sending Notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. Thursday, September 21, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.inor RTA MAS Services Limited at info@masserv.com and may cast their votes by following the instructions of remote e-voting and e-voting at AGM as mentioned in the Notice of AGM. However, if the members are already registered with NSDL for e-voting then they can use

The Company has appointed Ms. Rashmi Sahni, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS: 25681; CP No: 10493), to act as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting on the date of the AGM, in a fair and transparent manner who shall submit not later than 48 hours of the conclusion of the Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company or any person authorized by him in writing and the Results shall be declared by the Chairman or any person authorized by him thereafter. The Members who have not registered their email address and bank account details are

requested to register the same by sending a signed request to Registrar and Transfer Agent of the Company (RTA), MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN( Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank details with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34, 2nd floor, Okhla industrial area phase-II, New Delhi 110020 alongwith letter mentioning folio no. If not registered already.) in case of Physical Holding and if shares are held in demat form, please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and Bank A/c details. 10. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders

and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Amit Vishal, Assistant Vice president, NSDL atevoting@nsdl.co.in. Further, members may also contact Mr. Deepanshu Rastogi, Assistant Manager, MAS Services Limited, RTA of the Company at T-34, 2<sup>nd</sup> Floor, okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Phone No. 011-26387281/82/83, E-Mail info@masserv.com **BOOK CLOSURE** Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of

Year 2022-23. For Pearl Polymers Limited

the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations

and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share

Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday. September 22, 2023 to

Thursday, September 28, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM for Financial

Sai Capital Limited

(CIN: L74110DL1995PLC069787) Regd. Office: G-25, Ground Floor, Rasvilas Salcon D-1, Saket District Centre, Saket, New Delhi, South Delhi -110017 | Ph.: 011-40234681 E mail: cs@saicapital.co.in | Website: www.saicapital.co.in

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT: The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, 29th September, 2023 at 12:30 P.M. I.S.T. through Video Conferencing (VC) / Other Audio

NOTICE OF THE 28TH ANNUAL GENERAL MEETING,

E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Visual Means (OAVM), in terms of "MCA Circulars" to transact business as set out in the Notice of the AGM. In accordance with Circulars issued by SEBI and MCA, Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2022-23, inter-alia including e-voting instructions and credentials has been sent only through e-mail on 6th September, 2023 to the Members whose email IDs are registered with the RTA / Company or with the

Depository Participants. These documents can be downloaded from the website of the Company at www.saicapital.co.in and also from the website of BSE Limited at www.bseindia.com, where the Equity Shares of the Company are listed. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, and MCA Circulars, the Company is providing remote e-voting facility through M/s. National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting facility is being provided to Members whose names appear in the Register of Members, or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date i.e., Friday, 22nd September, 2023 to exercise their

Notice of AGM. Detailed procedure and instructions for joining the meeting through VC/OAVM and remote e-voting facility are mentioned in the Notice of AGM Date and time of commencement and ending of remote E-voting: Commencement: Tuesday, 26th September, 2023 (09:00 A.M. I.S.T.) Ending: Thursday, 28th September, 2023 (05:00 P.M. I.S.T.) During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or

right to vote by using remote e-voting on any or all of the businesses specified in the

in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2023, may cast their vote via remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 P.M. I.S.T. on Thursday, 28th September, 2023 and Members will not be allowed to vote by way of remote e-voting beyond the said date and time. Once the vote on a Resolution has

Members who have cast their vote via remote e-voting prior to the AGM, may attend the AGM through VC / OAVM, but are not entitled to cast their vote again.

been cast, the Member, shall not be allowed to change it subsequently.

Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the Notice of AGM has been sent, and holds shares as on the cut-off date i.e., Friday, 22nd September, 2023, may obtain the Login ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the RTA, M/s. Alankit Assignments Limited at info@alankit.com and vote by following the instructions of remote e-voting as mentioned in the Notice of the AGM. Members already registered with NSDL for evoting can use their existing user ID and password to vote.

The Company has appointed Ms. Rashmi Sahni, Practicing Company Secretary (Membership No. ACS 25681; CP No.: 10493), to act as Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall submit not later than 2 working days of the conclusion of the meeting, a Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor or against, if any, forthwith to the Chairman of the Company or any person authorized by him in writing and the Results shall be declared by the Chairman or any person authorized by him, thereafter.

Members who have not registered their email ID, are requested to register the same by sending a signed request to the Registrar and Transfer Agent of the Company (RTA), M/s. Alankit Assignments Limited at info@alankit.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhaar Card). For shares held in Demat form, the Depository Participant (DP) may be contacted for registering the email ID.

In case of any queries, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 18001020990/1800224430 or send a request to Mr Amit Vishal, Assistant Vice President or Ms Pallavi Mhatre, Senior Manager, M/s. National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated e-mail IDs: evoting@nsdl.co.in or AmitV@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in, or at telephone nos. : +91-22-24994360 or +91-99202 64780 or +91-22-24994545. Further, Members may also contact RTA of the Company M/s. Alankit Assignments Limited at info@alankit.com or at telephone no. 011 42541234/ 23541234.

BOOK CLOSURE

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 23, 2023 to Friday, September 29, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM for Financial Year 2022-23. By Order of the Board

Sai Capital Limited Dr. Niraj Kumar Singh Chairman & Managing Director

DIN: 00233396

Date: 06/09/2023

Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Date: 6th September, 2023

New Delhi

Sd/

**Aman Thakran** 

**Company Secretary** 

#### NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

CIN: L51909DL1984PLC019485 Regd. Office: 9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006 Tel. No.: 011-23517516-19, Email: Id-cs@neccgroup.com, Website: www.neccgroup.com CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members. This is in reference to the Notice of Annual General Meeting dated August 25, 2023("AGN Notice") of North Eastern Carrying Corporation Limited ("the Company") to be held or Saturday, September 16, 2023 at 12.30 P.M. through Video Conference (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility, for seeking approval for matters contained in the said notice The said notice has been duly dispatched to the shareholders of the Company on August 25 2023 as per the applicable laws. The Company through this corrigendum wishes to bring to the notice of the Shareholders of the Company for Inclusion of Item No. 3 in the AGM Notice regarding revision in the remuneration of Mr. Utkarsh Jain, Whole-time Director of the Company along with the explanatory Statement.

All other particulars and details as mentioned in the AGM Notice shall remain unchanged. Th corrigendum shall be read in conjunction with the AGM Notice dated August 25, 2023 together with explanatory statement. This corrigendum is also available on the Company's website viz www.neccgroup.com, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com & or the website of National Stock Exchange of India Limited at www. nseindia.com where the shares of the Company are listed.

For North Eastern Carrying Corporation Limited

Mamta Bisht Date: September 06, 2023 Company Secretary & Compliance Office



Place: Delhi

पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 55-56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021 दूरभाष नं. : 022-61884700 ई-मेल : sys@pegasus-arc.com यूआरएल : www.pegasus-arc.com

ई-नीलामी हेत् सार्वजनिक सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति

रतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को सचना दी जाती है कि पेगासस ग्रंप थर्टी नाइन टस्ट-1 (पेगासस) के टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत प्रतिभत लेनदार पेगासस एसेटस रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत एसाइनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 31.03.2021 के माध्यम से आरबीएल बैंक लिमिटेड ह्यारा नीचे उल्लिखित कर्जदार के बकायों की वसुली के लिए अधिकृत है। उपर्युक्त एसाइनमेंट अनुबंध के आलोक में नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रतिभूत लेनदार पेगासस

हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री

एआरसी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 30.11.2021 को कर लिया गया है और इसकी बिक्री पेगासस एसेट्स रीकंस्टक्शन प्रा.लि. के मैसर्स श्री बालाजी लॉजिस्टक्स, स्वर्गीय श्री रतनलाल अग्रवाल (कानुनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से), श्रीमती कृष्णा गर्ग पत्नी स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल और श्री सचिन कुमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय स्तनलाल अग्रवाल से 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार 06.09.2023 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभारों तथा उस पर व्ययों सहित 10.09.2021 तक क. 41,51,328.80/-(रुपर्वे इकतालीस लाख इक्यावन हजार तीन सी अट्ठाईस एवं अस्सी पैसे मात्र) [05.09.2023 तक क. 67,88,870.33/- (रुपये सड़सट लाख अस्टासी हजार आठ सी सत्तर एवं तैतीस पैसे मात्र] की वसुली के लिए 29.09.2023 को "जहां है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। यदि कर्जदार/गारंटर प्रतिभृत संपत्ति की बिक्की से पहले किसी भी समय पेगासस को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ पेगासस की पूरी बकाया राशि का भूगतान करते हैं, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 46,10,000/- (रुपए छियालीस लाख दस हजार मात्र) होगा और जमा धरोहर राशि 4,61,000/- (रुपए चार लाख इकसठ हजार मात्र) होगी।

कर्जदार/गारंटर का नाम बकाया देवताएं	मैसर्स श्री बालाजी लॉजिस्टिक्स     स्वर्गीय श्री स्तबलाल अग्रवाल के कानूनी उत्तराधिकारी     श्रीमती कृष्णा गर्ग पत्नी स्वर्गीय स्तबलाल अग्रवाल     4. श्री सचिन कृमार अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय स्तबलाल अग्रवाल     06.09.2023 से अनुबन्ध दर पर ब्याज एवं लागतों, प्रभागें तथा उस पर व्वयों सहित 10.09.2021 तक रु. 41,51,328.80/- [05.09.2023 तक रु. 67,88,870.33/- (रुपये सहस्रठ लाख अट्टासी हजार आठ सी सत्तर एवं तैतीस पैसे मात्र]
अचल सम्पत्ति का विवरणः	प्लॉट नं. ए-241/25, प्रथम तल, छत के अधिकार रहित, टीएचए, सेक्टर- 7, सूर्य नगर, गाजियाबाद, उ.प्र201011 पर स्थित आवासीय सम्पत्ति का समस्त भाग, माप 85.94 वर्ग मीटर, स्वामित्व श्री स्तनलाल अग्रवाल एवं श्रीमती कृष्णा गर्ग, विक्री विलेख नं. 24870 दिनांक 17.10.2011 के माध्यम से पंजीकृत
आरक्षित मूल्य	ਓ. 46,10,000/−
जमा धरोहर राशि (आरक्षित मृल्य का 10%)	ਓ. 4,61,000/-
चल सम्पत्ति का विवरणः	निल
सम्पत्ति के विरुद्ध दावे, यदि कोई हो, तथा प्रतिभृत लेनदार के संज्ञान में कोई अन्य बकाया एवं मूल्य	ज्ञात नहीं
सरसाई आईडी	200016106176
सम्पत्ति का निरीक्षण	25/09/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. सम्पर्क व्यक्ति : श्री नितिन कश्यप (अधिकृत प्राधिकारी) @8447636680 श्री सुरेन्द्र सिंह (8947960010)
बोली/संविदा जमा करने की अनिम तिथि :	28/09/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप. तक
संविदा खुलने की तिथि एवं	येवसाइट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) के माध्यम से ई-

यह प्रकाशन प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत उपर्यंक्त कर्जदारों/जमानतियों को पन्द्रह दिवसीय संचना भी है। बिक्री विस्तृत नियम एवं ऋतौं के लिए प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट अर्थात http://www.pegasus-arc.com/assets-

to-auction.html में प्रावधानित लिंक देखें। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपनी खेंबिदाएँ जमा करने से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति की ई-नीलामी/बिक्री के विस्तृत निवम एवं शतों के लिए कृपया प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट का सन्दर्भ लें। सॅबिदाकार वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं या सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्बोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑक्सन टाइगर से सम्पर्क कर सकते हैं, संविदा सहायता : 079-68136805/68136837, मोबाइल : +91 9978591888, ईं-मेल : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auction-

तिथि : 06.09.2023

#### "IMPORTANT" Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है ।

ई-वोटिंग के विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

से 29.09.2023 (शुक्रवार) (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

स्थान: दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी

पेगासस एसेट्स रीकस्ट्रवशन प्राडवेट लिमिटेड

(पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट-1 के ट्रस्टी)

न्यूटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजी. कार्या:: लोटस ग्रीन सिटी, सेक्टर 23 एवं 24, भिवाडी अलवर बाईपास, 75वाँ एमटीआर रोड धारूहेड़ा

रेवाडी हरियाणा 123401 भारत

CIN: L24239HR1984PLC040797

फोन: +91-7419885077, ईमेल: newtimeinfra2010@gmail.com; वेबसाईट: www.newtimeinfra.in

39वीं वार्षिक साधारण सभा, ई-वोटिंग की सूचना

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि एजीएम बुलाने के नोटिस में बताए गए अनुसार व्यवसाय निष्पादित करने के लिए न्यूटाइम

इंफ्रास्ट्रक्वर लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार 30 सितंबर, 2023 को दोपहर

1.00 बजे (भा.मा.स.) लोटस ग्रीन सिटी सेक्टर 23 और 24, भिवाडी अलवर बाईपास 75 मीटर रोड धारूहेडा, रेवाडी 123401

पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के सभी

लागू प्रावधानों और सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 14 दिसंबर,

2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 और उनसे संबंधित विभिन्न अन्य परिपत्र (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र'

के रूप में संदर्भित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD

CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी

2021 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 और परिपत्र संख्या

SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी 2023 (सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित)

के अनुपालन में, कंपनी ने बुधवार, 6 सितंबर, 2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना

मिसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत है।

केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से, उन सदस्यों के पास भेजी है जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कंपनी या

आगे, यथा संशोधित एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कम्पनी (प्रबंधन एवं

प्रशासन) नियमावली, 2015 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 108 तथा

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के प्रावधान

के अनुसार कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों ('रिमोट ई-वोटिंग') द्वारा 39वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पारित होने वाले

प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम करने हेत सदस्यों को सविधा उपलब्ध कराने में प्रसन्नता का

अनभव करती है। इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा ऑनलाइन मतदान की सविधा एजीएम के दौरान में उपलब्ध कराई जायेगी और जिन

सदस्यों ने बैठक की तिथि से पूर्व निर्धारित मतदान अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान पहले ही कर लिया

है वे एजीएम की तिथि पर ऑनलाइन मतदान के पात्र नहीं होंगे। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के लिए एजेंसी के रूप मे

सिंटुल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (इसके पश्चात ''सीडीएसएल'' संदर्भित) की सेवाएं ग्रहण की हैं। अधिनियम

रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 (9.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और शुक्रवार, 29 सितम्बर

2023 (5.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान हेतु रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल

भौतिक प्रारूप या डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य तथा ऐसा व्यक्ति जिसका नाम

शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 की कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों

के रजिस्टर में दर्ज है, वे रिमोट ई–वोटिंग तथा इलेक्टॉनिक साधनों के माध्यम से एजीएम के दौरान मतदान की सविधा

कोई व्यक्ति जिसने शेयर अर्जित किया है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त किन्तु 'कट-ऑफ तिथि' से पूर्व

सदस्य बन गया है, वह ई-वोटिंग हेत कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर अन्तरण एजेंट मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड

कम्प्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, निकट दादा

investor@beetalfinancial.com से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु यदि सदस्य

रिमोट ई-वोटिंग हेतु पहले से ही पंजीकृत है तो वह ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी और

इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल ने रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया की जांच के साथ–साथ एजीएम के दौरान निष्पक्ष और

पारदर्शी तरीके से मतदान के लिए मैसर्स एएएसके एंड एसोसिएट्स एलएलपी, एलएलपीआईएनः एएडी-2934) को नियुक्त

किया है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम के समापन से 48 घंटे के भीतर घोषित किया

जाएगा। स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in और बॉम्बे

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, जिस पर कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी www.bseindia.com पर रखे जाएंगे।

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से

डिपॉजिटरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों

के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स. बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2022–23 कम्पनी की वेबसाइट www.newtimeinfra.in तथा सीडीएसएल की

वेबसाइट www.evotingindia.com और साथ ही बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निदेशों के लिए, सदस्य 39वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस में 'नोट्स' अनुभाग का

जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान कर लिया है वे भी वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य

दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे ऑनलाइन मतदान के माध्यम से दुबारा मतदान

यदि आपके पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com

न्यु इन्टाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए

हस्ता./

राज सिंह पूनिया

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स को ध्यान से पढ़ें और विशेष रूप से, एजीएम में शामिल

होने के निर्देश, रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें

पर ईमेल लिख सकते हैं या 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं।

हरसुखदास मंन्दिर, नई दिल्ली-110062, दूरभाष : 011-29961281-83, ई-मेल

तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिये गये हैं

द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

ग्रहण करने के पात्र होंगे।

पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।

को investor@beetalfinancial.com पर लिखें।

दिनांक: 01/09/2023

दिनांकः 07.09.2023, स्थानः अजमेर

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड

CIN: L67190DL1993PLC052050

पंजीकृत कार्यालय :- ए-2/3, तृतीय तल, लूसा टॉवर, आजादपुर,

दिल्ली-110033

फोन नंबर 011-27674181 | फैक्स नंबर +91-11-47619811

ईमेल आईडी: titansecurities@yahoo.com

31<sup>वां</sup> वार्षिक आम बैठक,ई-वोटिंग सुविधा और बुक क्लोजर की सूचना

एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की **31<sup>वा</sup> वार्षिक आम बैठक** कंपनी अधिनियम, 2013

के लागू प्रावधान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय

बोर्ड द्वोरा जारी किए गए परिपत्रों ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित के लागू नियम और विनियम के

अनुपालन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल ("ओएवीएम") के माध्यम

से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना एक सामान्य स्थान पर सामान्य और विशेष व्यवसाय

को लेन-देन करने की सुविधा, जैसा कि एजीएम की सूचना में निर्धारित किया गया है **शुक्रवार**,

29 सितम्बर 2023 बर्जे आयोजित की जाएगी। एजीएमें का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय

एमसीए और सेबी के पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार, 31 एजीएम की सूचना, वर्ष 2023 की

वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में जिसमें 31 मॉर्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित

वित्तीय विवरण ("वार्षिक रिपोर्ट") में है और अन्य अनिवार्य अनुलग्नक शामिल हैं ईमेल द्वारा

उन सदस्यों को भेज दिया गया है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/रजिस्टार

और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। एजीएम नोटिस वाली 31 वार्षिक रिपोर्ट कंपनी

की वेबसाइट www.titansecuritieslimited.com और BSE लिमिटेड की वेबसाइट यानी

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम में किए जाने वाले कारोबार की मद से

संबंधित दस्तावेज एजीएम से पहले या उसके दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में लागू नियमों और विनियमों के साथ, सदस्यों को

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है और वे अपनी वेबसाइट

www.evotingindia.com के माध्यम से सीडीएसएल सिस्टम का उपयोग करके रिमोट ई

वोटिंग के माध्यम से एजीएम के प्रस्तावों पर वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग **मंगलवार** 

26 सितंबर, 2023 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को

शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।मतदान की पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2023 है। कोई भी

व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि से पहले कंपनी का सदस्य बन जाता है, शेयर प्राप्त करने के बारे में

प्रासंगिक जानकारी दे सकता है और beetalrta@gmail.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन

चुंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाती है, ऐसे सदस्य जो पात्र थे और

जिन्होंने पहले अपना वोट नहीं डाला था. एजीएम के दौरान वोट देने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों

ने पहले ही मतदान कर दिया है वे एजीएम में भाग लेने के हकदार होंगे लेकिन एजीएम के प्रस्तावों

पर फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।वोटिंग अधिकार कंपनी की प्रदत्त पूजी में प्रत्येक

शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों की संख्या के बराबर होंगे। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और

किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और

www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल के सहायता अनुभाग के तहत देख

सकते हैं। इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश

दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं

मंजिल, मैराथन प्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकत नहीं हैं. वे

अपना ईमेल पता कंपनी या कंपनी के रजिस्टार और टांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड

कृप्यूटर् सर्विसेज् प्राइवेट लिमिटेड के साथ beetalrta@gmail.com पर पंजीकृत कर सकते

हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता

एजीएम के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर टांसफर बुक 23.09.2023 (शनिवार)

टाइटन सिक्योरिटीज लिमिटेड के लिए

(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)

आकांक्षा शर्मा

#### महिन्द्रा रुरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः—साधना झउस, द्वितीय तल, 570 पी.बी. मार्ग वर्ली, मुम्बई-400018 दूरभाषः-022 66523500 फैक्सः 022 24972741 क्षेत्रीय कार्यालयः- तीसरी मॉनिल, प्लॉट नंबर 46-47, श्रीनाथ टॉवर, कॉस्मो कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर -302021, CIN:U65922MH2007PLC169791

कब्जा सूचना

यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित

प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 के संख्यांक 54 ) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत हित शक्तियों के प्रयोग में एक मांग पत्र निम्न ऋणीयों को उक्त सूचना पत्र,में वर्णित राशि सभी लागतो,खर्चो एवं व्ययों सहित भुगतान की वास्तविक दिनांक तक इस नोटिस की पावती के 60 दिनों ां भुगतान हेतु जारी किया। उक्त ऋणीयों/सहऋणीयों द्वारा राशि के भुगतान करने में असफल रहने पर ऋणीयों/सहऋणीयों एवं जन सामान्य को एतद् द्वारा सूचना−पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)धारा 13(4) के साथ सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसकी प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग मे एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य निम्नलिखित दिनांकों को ग्रहण कर लिया है। ऋणीयों को विशेषतया तथा जनसामान्य को सामान्यतया यह सुचित किया जाता है वह उक्त सम्पत्तियों में लेनदेन ना करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी लेनदेन महिन्द्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्नलिखित सम्बन्धित राशि पर संबंधित दिनोक से उस पर भविष्य के ब्याज,लागतों एवं प्रभारों के अध्यधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता हैं। ऋणीयों/सह ऋणीयों/जमानतदारों अनुसूचित सम्पत्ति , बकाया राशि धारा 13 (2)

के अन्तर्गत भेजे गर्य मांग पत्र के अनुसार और दावा राशि जिसके अनुसार कब्जे की दिनाक नीचे दी गयी है।				
क्र. सं.	ऋणी/सह–ऋणी /जमानतदार का नाम/ऋण खाता संख्या	13(2) नोटिस की विनोक एंव बकाया राशि	बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण	मौतिक कब्जे की दिनांक
	ऋणीः अमर चन्द सह–ऋणीः सायरी देवी LAN:XSEMAJM00710200	रू. 11,65,181/- (रूपये ग्यारह लाख पैंसठ	पट्टा संख्या 34 जो गांव- खोंडा, खोडा, ग्राम पंचायत-बुबानी द्वारा जारी, पंचायत समिति-श्रीनगर, जिला-अजमेर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 150 वर्ग गज एवं सीमाऐं:- पूर्वः हाबू का मकान, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः सेठा राम का मकान, दक्षिणः लक्ष्मण का मकान	04/09/2023
	ऋणीः भागचन्द चौधरी सह–ऋणीः पारसी LAN:XSEMAJM00630437	22.08.2022 枣. 7,85,956/-	पट्टा संख्या 25 जो पुस्तक संख्या – 68, संकल्प संख्या – 05, ग्राम पंचायत– लल्लई द्वारा जारी, पंचायत समिति– अराई, जिला–अजमेर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल (106.00 वर्ग गज), सीमाएँ:– पूर्वः कैलाश/हराजी जाट की सम्पत्ति, पश्चिमः मंदिर श्री देव नारायण जी और आम रास्ता, उत्तरः अमराव/	05/09/2023

#### VAISHNAVI INDUSTRIES LIMITED

इस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी), महिन्द्रा करल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

रामनाथ जाट की सम्पत्ति, दक्षिणः भंवर लाल/ इंसराज की संपत्ति

Registered Office: 30, Rajokri Road, Kapashera, New Delhi-110037 **VOLUNTARY DELISTING OF EQUITY SHARES** 

Be it known to all Shareholders and concerned persons that at request from Prompters of Vaishnavi Industries Ltd., CIN No. L74899DL1982PLC073814 with Registered office at Delhi, has called a Board Meeting of the company to be held on **September** 15, 2023 at Registered office of the company at 3.30 P.M. to consider the Material Event as to initiate process for securing Voluntary Delisting of 2,45,000 equity shares of Rs.. 10 each fully paid listed with Calcutta Stock Exchange, Kolkata. All Members and stock exchange have been sent individual notice

KAUL SONIA, MANAGING DIRECTOR September 07, 2023 DIN 052556422

# फेडरल बैंक

आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

एलसीआरडी नई दिल्ली डिविजन, यु.जी.एफ., फेडरल टॉक्स, 2/2 वेस्ट पटेल नगर, पटेल रोड, नई दिल्ली-110008 फोन नं. 011-40733977, 78, 79 एवं 80 ई-मेलः ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईट: www.federalbank.co.in

## कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबिक, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने दि फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना दिनांकित 03-03-2023 निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता (1) श्रीमती रानी अरोड़ा पत्नी तथा विधिक उत्तराधिकारी स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा, निवासी : ७ / ९, पुराना राजिंदर नगर, दिल्ली—110060, (2) श्री अनुज अरोड़ा पुत्र विधिक | उत्तराधिकारी श्री सुखदेश कुमार अरोड़ा, निवासी : 7/9, पुराना राजिंदर नगर, दिल्ली-110060, (3) श्री वैभव घई पुत्र श्री बृज मोहन घई, निवासी : ईजी-1, इंदर पुरी, दिल्ली–110012, (4) श्रीमती श्वेता घई पत्नी श्री वैभव घई तथा स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा के विधिक उत्तराधिकारी, निवासी : ईजी-1, इंदर पुरी, दिल्ली-110012, (5) श्री अखिल चड्ढा पुत्र श्री रमेश चड्ढा, निवासी : फ्लैट नं. 89, पुष्पांजलि अपार्टमेंट्स, भूखंड सं. 10, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078, (6) श्रीमती गीतू चड्ढा पत्नी श्री साहिल चड्ढा तथा स्व. सुखदेश कुमार अरोड़ा के विधिक उत्तराधिकारी, निवासी : फ्लैट नं. ८९, पृष्पांजलि अपार्टमेंट्स, भूखंड सं. 10, सेक्टर-4, द्वारका, दिल्ली-110078 को, रु. 31,87,729.70/-**(रुपये इकतीस लाख सत्तासी हजार सात सौ उनतीस एवं सत्तर पैसे मात्र)** की एक राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभूगतान करने को कहा

ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभगतान करने में विफल हो चके हैं. अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ताओं एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 02 सितंबर 2023 को अधिग्रहण कर लिया है। ऋणकर्ता / ओं का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसंपत्तियों (प्रतिभतिगत संपत्तियों) के मोचनार्थ

उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया

ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, रु. 33,10,230.70 / - (रुपये तैंतीस लाख दस हजार दो सौ तीस एवं सत्तर पैसे मात्र) की एक राशि और राशि पर नियत लागतों, शुल्कों एवं ब्याज हेतु दि फेडरल बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

#### अचल संपत्ति का विवरण

भूखंड सं. 9 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्रथम तल पर अधिमापन 792 वर्ग फूट (88.1 वर्ग गज) तथा समतस्त अन्य सुधार जिसमें भूमि के नीचे मतें अविभाजित समानुपातिक स्वामित्वधारक अधिकार सम्मिलित हैं जो वहां पर विद्यमान उपमार्ग, सुधार तथा लाभों के अधिकारों के साथ, ब्लॉक ७ में समाविष्ट, ग्राम पूराना राजिंदर नगर, आसफ अली रोड, नई दिल्ली राज्य में स्थित, उप-जनपद के पंजीकरण के अंदर उप-पंजीयक ।।।, दिल्ली के कार्यालय के अंदर स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– सड़क, पश्चिम- अन्य संपत्ति, उत्तर- गली तथा दक्षिण- गली।

दिनांक: 02.09.2023 सरफेसी अधिनियम के तहत प्राधिकृत अधिकारी स्थानः नई दिल्ली (दि फेडरल बैंक लि.)

#### KIMIA BIOSCIENCES LIMITED

Regd. Off.: Vill. Bhondsi, Tehsil Sohna, Gurgaon-122102, Haryana E-mail: compliance.kimia@gmail.com Web: www.kimiabiosciences.com CIN: L24239HR1993PLC032120,

Tel: 011-47063600, 91 9654206544 | +91 9654746544 Fax: 011-47063601/02 NOTICE OF THE 30™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

#### Notice is hereby given that:

The 30<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kimia Biosciences Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 30, 2023 at 03:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business, as set out in the Notice of the AGM. The notice of AGM and the standalone audited financial statements for the financial year 2022-23 along with the Board report, Auditors report and other documents required to be attached thereto, will be sent electronically to those members of the Company, whose e-mail address is registered with the Company/Depository Participants/Depositories. The notice of AGM and the aforesaid documents will also be available on the Company website at www.kimiabiosciences.com and on the BSE website www.bseindia.com The documents referred to in the notice of AGM are available electronically for inspection

by the members from the date of circulation of notice of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to compliance.kimia@gmail.com.

#### Remote e-voting and e-voting during AGM The Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on

solutions proposed to be passed at the AGM by electronic means (e-voting). Member may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below(remote e-voting). The Company has engaged the services of M/s. Beetal Financial and Computer Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility. Information and instructions comprising manner of voting, including voting remotely by

members holding shares in demateralised mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail id has been provided in the notice of AGM. The manner in which (a) person who becomes member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as on cut-off date (mentioned herein); (b) Members who have forgotten the User ID and password can obtain/generate the User ID and password has also been provided in the notice of AGM. The remote e-voting will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting | 09:00 am (IST) on Wednesday, September 27,2023

05:00 pm (IST) on Friday, September 29,2023 End of remote e-voting

The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Beetal upon expiry of aforesaid period. Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote electronically (insta poll) at the AGM. A person whose name is recorded in the register of Members as on the cut-off date, that is

Saturday, 23th September 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for voting through insta poll. Pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and

Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 24, 2023 to Saturday, September 30, 2023, (both days inclusive), for the 30th AGM for the financial year ended March 31, 2023.

In case of any queries or issues regarding attending AGM or e-voting you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at designated email ID evoting@nsdl.co.in who will

> By the Order of the Board of Directors For Kimia Biosciences Limited

Lakshay Prakash

#### नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

(सीआईएन: L65993DL1970PLC146414) पंजीकृत कार्यालय : 28 नजफगढ़ रोड, मोती नगर इंडस्टियल एरिया, नई दिल्ली-110 015

फोन नंबर (011) 45021854, 45021812

शाखा कार्यालय : ओ. पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा फोन नंबर (01662) 222471-83

ई-मेल आईडी : investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com 52वीं वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई—वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

- एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की 52वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") का आयोजन-शक्रवार, 29 सितंबर 2023 को 11.30 बजे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजयल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और तदधीन विरचित नियमों, कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020.17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, 03 / 2022 तथा 10 / 2022 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 14 दिसम्बर, 2021, 5 मई, 2022 तथा 28 दिसम्बर, 2022 क्रमानुसार तथा अन्य संबद्ध सर्कुलर्स ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कूलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021, सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई. 2022 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांकित 5 जनवरी, 2023 ("सेबी सर्कलर्स") के अनुपालन में की जाएगी, जिसमें सदस्यों का किसी उभय स्थान पर मौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स के अनुपालन में, 52वीं एजीएम की सूचना तथा वर्ष 2022-23 हेत् वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेत् लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल है. ६ सितम्बर, २०२३ को ई—मेल द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा चकी हैं. जिनके ई-मेल कम्पनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपैंट्स के पास पंजीकृत है। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता उपरोक्त एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है।
- 22 सितम्बर, 2023 की कट ऑफ तिथि को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("लिंक इनटाइम") की रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साधारण व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :
- एजीएम की सचना में निर्दिष्ट साधारण व्यवसाय का निष्पादन इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है :
- रिमोट ई-वोटिंग 26 सितम्बर, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी :
- रिमोट ई-वोटिंग 28 सितम्बर, 2023 को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) बंद होगी :

बाद में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद लिंक इनटाइम द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद सदस्य को उसमें
- रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारण हेत् कट-ऑफ तिथि 22
- कोई व्यक्ति. जिसका नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, केवल वही रिमोट
- ई-वोटिंग / एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा पाने का हकदार होगा ; जो सदस्य रिमोट ई-बोटिंग से वोट कर चुके हैं वे एजीएम में ई-बोटिंग सुविधा पाने के हकदार
- viii) सदस्य रिमोट ई–वोटिंग से वोट कर चुके होने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु बैठक में दोबारा वोट डालने का हकदार नहीं होगा :
  - कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर अर्जित करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 22 सितम्बर, 2023 को शेयर धारक है, वह swapann@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह मतदान करने के लिये वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर
  - ई-वोटिंग से संबंधित पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https:/instavote. linkintime.co.in के हेल्प सेक्शन का संदर्भ लें या श्री स्वपन कुमार नसकार, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट एवं हेड (उत्तर भारत), लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट नंबर एनएच2 सी1 ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्किट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 से कॉन्टैक्ट नंबर (011)-41410592/93/94 (ई-मेल swapann@ linkintime.co.in) पर या कम्पनी से सम्पर्क करें।
- सदस्यगण जो कि भौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं और जिन्होंने अपने ई-मेल पतों को कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं कराया है और जो 52वीं एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक रिपोट तथा / अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 52वीं एजीएम से जुड़ने हेतु लॉगइन विवरण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अब कम्पनी के साथ अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण करा सकते हैं। इस उददेश्य हेत वे अपनी ई–मेल तथा केवाईसी विवरण अद्यतन करवाने के लिए प्रपत्र आईएसआर-1 उसमें विनिर्दिष्ट विवरण / वांछित दस्तावेज (कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर उपलब्ध) युक्त अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट, लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड को भेज सकते हैं। सदस्यगण जो कि अभौतिक रूप में अंशों का धारण किए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि वे केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत कर लें।
- एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर तथा लिंक इनटाइम की वेबसाइट <u>https:/instavote.linkintime.co.in</u> पर भी उपलब्ध है।
- xiii) निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई-वोटिंग का संचालन करने के लिए कंपनी ने मेसर्स राजेश गर्ग एँड कम्पनी, के राजेश गर्ग अभ्यासत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियक्त किया गया है।
- सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तक बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 से ब्रहरपतिवार, 21 सितम्बर, 2023 (दोनों दिन सहित) तक एजीएम उद्देश्य से बंद रहेंगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com और स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाईटों, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात <u>www.nseindia.com</u> और <u>www.bselndia.com</u> पर भी उपलब्ध है । कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

तिथि : 06 सितम्बर, 2023

स्थान : हिसार

सकता है।

(अजय मित्तल) कंपनी सचिव

### साई कैपिटल लिमिटेड

( सीआईएन: L74110DL1995PLC069787 ) पंजीकृत कार्यालयः जी-25, ग्राउंड फ्लोर, रसविलास साल्कॉन डी-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली -1100171 फोन: 011-40234681 ईमेलः cs@saicapital.co.in | वेबसाइटः www.saicapital.co.in

28वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सुचना रतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि:

'एमसीए परिपत्र' के संदर्भ में एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए कंपनी की 28वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे भा.मा.स. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

सेबी और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना, अन्य बातों के साथ-साथ ई-वोटिंग निर्देश और क्रेडेंशियल्स सहित, सितंबर, 2023 को केवल ई-मेल के माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनकी ईमेल आईडी आरटीए/कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.saicapital.co.in से और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सचीबद्ध हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों और सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग

सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी या सभी व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग का उपयोग करके

मतदान करने हेतु ई-वोटिंग सुविधा उन सदस्यों को प्रदान की जा रही है जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं। वीसी/ओएवीएम और रिमोट ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से बैठक में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम के नोटिस में उल्लिखित हैं। रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत और समाप्ति की तारीख और समयः प्रारंभः **मंगलवार, 26 सितंबर, 202**3

(०९:०० पूर्वाह्न भा.मा.स.) समाप्तः गुरुवार, २८ सितंबर, २०२३ (०5:०० अपराह्न भा.मा.स.) इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2023 तक भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे भा.मा.स. के बाद मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा और सदस्यों को उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-

वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनमित नहीं दी जाएगी। एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान हो जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन दोबारा मतदान नहीं कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है, और कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या आरटीए, मेसर्स अलंकिट असाइनमेंट्स लिमिटेड को info@alankit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और एजीएम के नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करके मतदान कर सकता है।

ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्य वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रुटिनाइजर के रूप में कार्य करने के लिए सश्री रश्मी साहनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव ( सदस्यता संख्या एसीएस 25681; सीपी संख्या: 10493) को नियुक्त किया है। संवीक्षक बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के अंदर, पक्ष में डाले गए कुल मतों की एक संवीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत कंपनी के अध्यक्ष

या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकत किसी व्यक्ति को प्रस्तत करेगा और उसके बाद अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे। जिन सदस्यों ने अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को

atinfo@alankit.com पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड (डीपी) से संपर्क किया जा सकता है।

की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) प्रदान करके एक हस्ताक्षरित अनुरोध भेजकर इसे पंजीकृत करें। डीमैट फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए, ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट 10. किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देखें या टोल फ्री नंबरः 18001020990/1800224430 पर कॉल करें। या श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग,

चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, निर्दिष्ट ई-मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in या AmitV@nsdl.co.in य pallavid@nsdl.co.in अनुरोध भेजें, या टेलीफोन नंबर परः +91-22-24994360 या +91-99202 64780 या +91-22-24994545 पर संपर्क करें। इसके अलावा, सदस्य कंपनी के आरटीए मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से info@alankit.com पर या टेलीफोन नंबर 01142541234/23541234 से भी संपर्क कर सकते हैं।

।. बुक क्लोजर

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और सेबी (सचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के नियम 10 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक्स वित्तीय वर्ष 2022-23 के एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 23 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितंबर,2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगी।

> बोर्ड के आदेश से साई कैपिटल लिमिटेड

डॉ. नीरज कुमार सिंह अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक: 06/09/2023 स्थानः नई दिल्ली

बी9 बेवरेजेज लिमिटेड (पूर्व की बी9 बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड) सीआईएन: U80903DL2012PLC236595

11वीं वार्षिक आम बैठक की सुचना, रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी

11वीं वार्षिक आम बैठक के नोटिस की इलेक्टॉनिक प्रति www.skvlinerta.com

आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108, समय-समय पर संशोधित कंपनी

जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ( एसएस-2) के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की कट-ऑफ तिथि शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सीएसडीएल की इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम

व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया क) रिमोट ई-वोटिंग के तहत या 11वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की पात्रता

निर्धारित करने की अंतिम तिथि शनिवार 23 सितंबर, 2023 है। ख) रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समयः मंगलवार, 26 सितंबर, 2023, सुबह 09:00

अनमति नहीं दी जाएगी घ) कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 तक शेयर रखता है, admin@skylinerta.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड

ङ) सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से 11वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर जाएं। कपया इलेक्टॉनिक वोटिंग से पहले 11वीं एजीएम के नोटिस के नोटस में दिए गए निर्देशों

यदि आपके पास सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम और ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान की सविधा से जड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ

प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरैक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई -400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें। निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

> वरुण क्वात्र कंपनी सचिव सदस्यता संख्या ए२३०७७

पंजीकृत कार्यालयः परिसर संख्या 106, द्वितीय तल ब्लॉक एच, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-49206600, ईमेल आईडी: Secretarial@bira91.com

2020, 13 अप्रैल, 2020, 05, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 **दिसंबर**, 2021, 05 **मई**, 2022 **और 28 दिसंबर**, 2022, सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र संदर्भित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के सभी लागु प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में 11वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित किए गए व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए बी9 बेवरेजेज लिमिटेड (पूर्व की बी9 बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड) की 11वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 को

पर उपलब्ध है और उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। यह सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण (इसके साथ आवश्यक रूप से संलग्न ऑडिटर रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों सहित) उन सभी सदस्यों को नोटिस के साथ भेज दिया गया है जिनकी ई-मेल

(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वार

स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान ('रिमोट ई-वोटिंग') से एजीएम के नोटिस में निर्धारित

(ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की 28 सितंबर 2023 को शाम 05:00 बजे के बाव

को ध्यान से पढें।

बी९ बेवरेजेज लिमिटेड (पूर्व की बी९ बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड) स्थानः नई दिल्ली

चेयरमैन एवं निदेशक दिनांक: 07.09.2023 डीआईएन : 09615705

address the grievances related to electronic voting.

Date: 06.09.2023

Place : New Delhi

**CFO & Company Secretary** 

डीआईएन: 00233396

www.readwhere.com

स्थान : हरियाणा तिथि : 07.09.2023

संदर्भ ले सकते हैं।